

**Keywords:** खरीदना, बेचना, दुकान, दाम, मोल-भाव, छूट, छुट्टा, मुफ्त, चुकाना

**खरीदारी** (also pronounced खरीददारी)  
f. shopping, purchasing

**कल मेरा मकान बेचा जायेगा।**  
Tomorrow my house will be sold.

**खरीदना** v.t. to buy, to purchase

**बिकना** v.i. to be sold

**खरीद** f. buy, purchase

**यह ज़मीन कल बिकने वाली है।**  
This land is going to be sold tomorrow.

**मुझे कपड़े खरीदने हैं।**  
I want to buy clothes.

**यह ज़मीन कल बेची जायेगी।**  
This land will be sold tomorrow.

**खिलौना** m. a toy

**बेचने वाला** m. seller

**यह बहुत अच्छी खरीद है।**  
This is a good purchase/buy.

**कल्पना** f. imagination

**हम खरीदारी करने बाज़ार गए थे।**  
We had gone to the market for shopping.

**अस्तित्व** m. existence

**सब्ज़ी** f. a vegetable

**मालिक** m. owner, master

**सन्दर्भ** m. context

"बेचा जाएगा" - उसमें हम.. जो seller है एक तरीके से, जो बेच रहा है, उसकी दृष्टि से देख रहे हैं, बिलकुल। और "कल बिकेगा" - तो उसमें कौन बेच रहा है वह ज़रूरी नहीं है जानना। उसका दृष्टिकोण नहीं है इस वाक्य में।

**ले आना** to bring

"Will be sold" – in this we...are looking from the viewpoint of the seller, absolutely. And "Will be sold tomorrow" – so in this, it is not necessary to know who is selling. His (the seller's) perspective is not there in the sentence.

**दो किलो आलू ले आना।**  
Bring 2 kg potatoes.

**बेचना** v.t. to sell

**दृष्टि** f. view, viewpoint

**बेचा जाना** to be sold

**दृष्टिकोण** m. perspective, viewpoint

**मुझे अपना मकान बेचना है।**  
I want to sell my house.

**वाक्य** m. a sentence

बिकाऊ adj. for sale

यह ज़मीन बिकाऊ है।

This land is for sale.

सीमित adj. limited

अधिकतर adv. usually

उपयुक्त adj. appropriate

उचित adj. appropriate; acceptable

दिलचस्प adj. interesting

केवल उदाहरण के लिए मैंने एक नाम चुन लिया है।

I've just picked a name for giving examples!

मुलाकात f. meeting

दुकानदार m. shopkeeper

दर्शाना v.t. to show

सामान m. things, goods, stuff

उपयोगी adj. useful

सामग्री f. items

Ingredients: not a very appropriate meaning.

"सामग्री" जब हम ingredients का अर्थ दर्शाना चाहते हैं, उस सन्दर्भ में ज़्यादा उपयुक्त लगता है।

“सामग्री” - when we wish to show the meaning of ingredients, in that context it seems more appropriate.

*Incorrect meaning expressed!* - “सामग्री” is used when we wish to show the meaning of *items* not *ingredients*.

मुझे घर के लिए बहुत सामान खरीदना है।

I have to buy a lot of things for home.

उपयोग m. use, usefulness

खाद्य-सामग्री f. edible items

पूजा-सामग्री f. items used for worship

भोजन m. food, a meal

संबोधित adj. addressed

भैया m. brother

भाई-साहब m. elder brother

भैया मुझे साड़ी दिखाइये।

Brother, show me a sari.

दाम m. price

बातचीत f. conversation

मूल्य m. price

कीमत f. price

<p><b>भैया, इस चीज़ का दाम क्या है?</b> Brother, what is the price of this thing?</p>	<p><b>ज़ेवरात बहुत कीमती होते हैं।</b> Ornaments are very expensive (valuable).</p>
<p><b>भैया इस चीज़ की कीमत क्या है?</b> Brother, what is the price of this thing?</p>	<p><b>ज़ेवर</b> m. ornament, a piece of jewelry</p>
<p><b>लिंग</b> m. gender</p>	<p><b>ज़ेवरात</b> m. ornaments, jewelry</p>
<p><b>लिखित</b> adj. written</p>	<p><b>किताब बहुत महँगी है।</b> The book is very expensive.</p>
<p><b>मोल-भाव</b> m. bargaining</p>	<p><b>मूल्यवान</b> adj. valuable, precious</p>
<p><b>मोल-भाव करना</b> to bargain</p>	<p><b>मूल्य</b> m. price, value</p>
<p><b>भाई-साहब, यह दाम बहुत ऊँचा है।</b> Brother, this price is too high!</p>	<p><b>छूट</b> f. discount</p>
<p><b>ऊँचा दाम</b> high price</p>	<p><b>जब भी सेल लगती है तो अक्सर आप दुकानों पर लिखा देखेंगे "भारी छूट"।</b> When there is a sale then often you will see written on shops "heavy discount."</p>
<p><b>भाई-साहब, दाम बहुत ज़्यादा है। थोड़ा कम कीजिए।</b> Brother, the price is too high! Reduce it a little bit!</p>	<p><b>५० प्रतिशत की भारी छूट।</b> Heavy discount of 50%!</p>
<p><b>भाई-साहब सही दाम लगाइयेगा।</b> Brother, charge the right price.</p>	<p><b>खुले पैसे</b> small change</p>
<p><b>भैया ठीक-ठीक दाम लगाइयेगा।</b> Brother, charge the right price.</p>	<p><b>रेज़गारी</b> f. change (in coins)</p>
<p><b>वाजिब</b> adj. reasonable, appropriate</p>	<p><b>तुम्हारे पास कुछ रेज़गारी मिलेगी?</b> Do you have some change (coins)?</p>
<p><b>भैया वाजिब दाम लगाइए।</b> Brother, ask a reasonable price!</p>	<p><b>तुम्हारे पास थोड़े खुले पैसे हैं?</b> Do you have some change?</p>
<p><b>कीमती</b> adj. expensive, valuable</p>	
<p><b>महँगा</b> adj. expensive</p>	<p><b>छुट्टा</b> m. change</p>

**तुम्हारे पास कुछ छुट्टा मिलेगा क्या?**  
Do you have change?

**१०० का छुट्टा है?**  
(Do you) have a change for 100 Rupees?

**सतर्क** adj. alert, cautious

**सिक्का** m. a coin

**१ रूपए का सिक्का**  
one rupee coin

**पहलू** m. facet, side

**सिक्के का दूसरा पहलू**  
the other side of the coin

**मुफ्त** adj. free

**एक के साथ एक मुफ्त।**  
Buy one get one free!

**मुफ्त का माल**  
free stuff

**चोरी का माल**  
stolen goods/stuff

**यह फ़ोन मुझे मुफ्त में मिला।**  
I got this phone for free.

**दोहराना** v.t. to repeat

**पसंद करना** to like

**पैसे देना** to pay (for something)

**बिल** m. bill

**बिल चुकाना**  
to pay a bill, to settle a bill

**बिजली का बिल**  
electricity bill

**उधार** m. a loan

**मैंने बहुत उधार ले लिया है अपनी पढ़ाई-लिखाई के लिए। अब मुझे वर्ष के अंत तक अपना उधार चुकाना होगा।**  
I have borrowed a lot of money for my studies. Now I will have to repay my debt by the end of the year.

**वर्ष** m. a year

**उधार चुकाना** to settle loans

**निजी** adj. personal

**अनुभव** m. experience